

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-सा.-09052023-245761  
SG-DL-W-09052023-245761

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 6]	दिल्ली, अप्रैल 28— मई 4, 2023, बृहस्पतिवार/ वैशाख 8—वैशाख 14, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 41-48
No. 6]	DELHI, APRIL 28— MAY 4, 2023, THURSDAY/VAISAKHA 8—VAISAKHA 14, 1945	[N.C.T.D. No. 41-48

भाग II खण्ड 1  
PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन  
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली  
अधिसूचना  
दिल्ली, 9 फरवरी, 2023

सं. 05/स्था.-I/ ई.-2/डी.एच.सी.—इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 110/स्था.-I/ई.-2/डी.एच.सी. दिनांक 10.11.2022 की निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	श्री वी. के. मित्तल, कार्यवाहक संयुक्त निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 08.02.2023 से आगामी आदेशों तक सुश्री अनीता मल्होत्रा, संयुक्त निबंधक के दिनांक 31.01.2023 को सेवानिवृत्त होने पर उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।

**टिप्पणी:** उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक “रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक “के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक “दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक “प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक “अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” के परिणाम के अध्यक्षीन है तथा इस शर्त के भी अध्यक्षीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/ कर्मचारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।

आदेशानुसार,  
जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.1)

### HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI NOTIFICATION

Delhi, the 9th February, 2023

**No. 05/Estt. I/E-2/DHC.**—In continuation to this Court’s Notification No. 110/Estt.-I/E-2/DHC dated 10.11.2022, Hon’ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

Sr. No.	Name of the officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. V.K. Mittal, Officiating Joint Registrar	Temporary Joint Registrar in Level 14 of Pay Matrix (as per 7 <sup>th</sup> Pay Commission).	With effect from 08.02.2023 till further orders against the vacancy which has become available upon retirement of Ms. Anita Malhotra, Joint Registrar on 31.01.2023.

**NOTE:** The above appointment is subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled “*Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled “*K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled “*Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled “*Pratima Rani Gupta & Others Vs. High Court of Delhi and Ors.*” and (v) W.P. (C) No. 8016/2016 titled “*Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.*” and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions, his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer(s) placed senior to him and in case no vacancy is available, he will stand reverted.

By Order,  
JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

## अधिसूचना

दिल्ली, 9 फरवरी, 2023

सं. 06/स्था.-I/ ई.-2/डी.एच.सी.—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	सुश्री रितु शर्मा, उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में कार्यवाहक संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 08.02.2023 से 28.02.2023 तक श्री देवेन्द्र सिंह, संयुक्त निबंधक की श्री जे. के. बत्रा, निबंधक की टी.डी.एस.ए.टी. में प्रतिनियुक्ति के कारण कार्यवाहक निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए रिक्त पद के प्रति।
		वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 01.03.2023 से आगामी आदेशों तक श्री सुभाष ठाकुर, संयुक्त निबंधक की दिनांक 28.02.2023 को सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उपलब्ध होने वाले रिक्त पद के प्रति।

## टिप्पणी:

- उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" के परिणाम के अध्यक्षीन है तथा इस शर्त के भी अध्यक्षीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/ कर्मचारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।
- सुश्री रितु शर्मा की कार्यवाहक संयुक्त निबंधक के पद पर दिनांक 28.02.2023 तक नियुक्ति इस शर्त के अध्यक्षीन है कि श्री जोगिंदर कुमार बत्रा, निबंधक, जो वर्तमान में टी.डी.एस.ए.टी. में प्रतिनियुक्ति पर हैं, के इस न्यायालय में प्रत्यावर्तन की दशा में और संयुक्त निबंधक की कोई रिक्ति उपलब्ध न होने पर वे उप निबंधक के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगी।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.1)

## NOTIFICATION

Delhi, the 9th February, 2023

No. 06/Estt. I/E-2/DHC.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

Sr. No.	Name of the officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Ms. Ritu Sharma, Deputy Registrar	Officiating Joint Registrar in Level 14 of Pay Matrix (as per 7 <sup>th</sup> Pay Commission).	With effect from 08.02.2023 upto 28.02.2023 against the vacancy which has become available upon promotion of Mr. Devendra Singh, Joint Registrar as Officiating Registrar against the deputation vacancy of Mr. J.K. Batra, Registrar who has proceeded to the office of TDSAT.

	Temporary Registrar in Level 14 of Pay Matrix (as per 7 <sup>th</sup> Pay Commission).	Joint Registrar With effect from 01.03.2023 till further orders against the vacancy which will become available upon retirement of Mr. Subhash Thakur, Joint Registrar on 28.02.2023.
--	--	---

- NOTES:** 1. The above appointment is subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled “*Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled “*K.K. Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled “*Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled “*Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.*” and (v) W.P. (C) No. 8016/2016 titled “*Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.*” and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions, her seniority position is depressed, she will be liable to yield her position to the officer(s) placed senior to her and in case no vacancy is available, she will stand reverted.
2. The appointment of Ms. Ritu Sharma as officiating Joint Registrar upto 28.02.2023 is also subject to the condition that upon repatriation of Mr. Joginder Kumar Batra, Registrar who is on deputation to TDSAT, to this Court and resultantly in case no vacancy of Joint Registrar is available, the concerned person shall be reverted to the post of Deputy Registrar.

By Order,  
JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

### अधिसूचना

दिल्ली, 9 फरवरी, 2023

सं. 07/स्था.-I/ ई.-2/डी.एच.सी.—इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 121/स्था.I/ई.-2/डी.एच.सी. दिनांक 20.12.2022 की निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	श्री तुषार कांति पाण्डेय, कार्यवाहक उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 08.02.2023 से आगामी आदेशों तक श्री वी. के. मित्तल, कार्यवाहक संयुक्त निबंधक की अस्थायी संयुक्त निबंधक के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए रिक्त पद के प्रति।

**टिप्पणी:** उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक “*रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य*”, (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक “*के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य*”, (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक “*दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य*”, (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक “*प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य*” तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक “*अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य*” के परिणाम के अधीन है तथा इस शर्त के भी अधीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/ कर्मचारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।

आदेशानुसार,  
जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.I)

**NOTIFICATION**

Delhi, the 9th February, 2023

**No. 07/Estt. I/E-2/DHC.**—In continuation to this Court's Notification No. 121/Estt.I/E-2/DHC dated 20.12.2022, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

S. No.	Name of the Officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Tushar Kanti Pandey, Officiating Deputy Registrar	Temporary Deputy Registrar in Level 13 of Pay Matrix (as per 7 <sup>th</sup> Pay Commission).	With effect from 08.02.2023 till further orders against the vacancy which has become available upon appointment of Mr. V.K. Mittal, Officiating Joint Registrar as temporary Joint Registrar.

**NOTE:** The above appointment is subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled "*Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "*K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "*Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "*Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.*" and (v) W.P. (C) No. 8016/2016 titled "*Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.*", and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer(s)/official(s) placed senior to him and in case no vacancy is available, he will stand reverted.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

**अधिसूचना**

दिल्ली, 9 फरवरी, 2023

**सं. 08/स्था.-I/ ई.-2/डी.एच.सी.**—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	सुश्री रेखा गर्ग सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में कार्यवाहक उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 08.02.2023 से 28.02.2023 सुश्री रितु शर्मा, उप निबंधक के कार्यवाहक संयुक्त निबंधक के रूप में पदोन्नत होने पर उपलब्ध हुए रिक्त पद के प्रति।
		वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 01.03.2023 से आगामी आदेशों तक सुश्री रितु शर्मा, कार्यवाहक संयुक्त निबंधक के अस्थायी संयुक्त निबंधक के पद पर नियुक्त होने के परिणाम-स्वरूप उपलब्ध होने वाले रिक्त पद के प्रति।

**टिप्पणी:**

1. उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "*रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य*", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "*के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य*", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "*दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य*", (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "*प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य*" तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक "*अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य*" के परिणाम के अध्यधीन है तथा इस शर्त के भी अध्यधीन कि उपरोक्त निर्णयों के

क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/ कर्मचारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जाएँगे।

2. सुश्री रेखा गर्ग की कार्यवाहक उप निबंधक के पद पर दिनांक 28.02.2023 तक नियुक्ति इस शर्त के भी अधीन है कि श्री जोगिंदर कुमार बत्रा, निबंधक, जो वर्तमान में टी.डी.एस.ए.टी. में प्रतिनियुक्ति पर हैं, के इस न्यायालय में प्रत्यावर्तन की दशा में और उप निबंधक की कोई रिक्ति उपलब्ध न होने पर वे सहायक निबंधक के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगी।

आदेशानुसार,  
जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.1)

### NOTIFICATION

Delhi, the 9th February, 2023

**No. 08/Estt. I/E-2/DHC.**—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

S. No.	Name of the Officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Ms. Rekha Garg, Assistant Registrar	Officiating Deputy Registrar in Level 13 of Pay Matrix (as per 7 <sup>th</sup> Pay Commission).	With effect from 08.02.2023 upto 28.02.2023 against the vacancy which has become available upon promotion of Ms. Ritu Sharma, Deputy Registrar as Officiating Joint Registrar.
		Temporary Deputy Registrar in Level 13 of Pay Matrix (as per 7 <sup>th</sup> Pay Commission).	With effect from 01.03.2023 till further orders against the vacancy which will become available upon appointment of Ms. Ritu Sharma, Officiating Joint Registrar as temporary Joint Registrar.

**NOTES:** 1. The above appointment is subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled "*Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "*K.K. Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "*Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "*Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.*" and (v) W.P. (C) No. 8016/2016 titled "*Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.*", and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions her seniority position is depressed, she will be liable to yield her position to the officer(s)/official(s) placed senior to her and in case no vacancy is available, she will stand reverted.

2. The appointment of Ms. Rekha Garg, as officiating Deputy Registrar upto 28.02.2023, is also subject to the condition that upon repatriation of Mr. Joginder Kumar Batra, Registrar who is on deputation to TDSAT, to this Court and resultantly in case no vacancy of Deputy Registrar is available, she shall be reverted to the post of Assistant Registrar.

By Order,  
JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

## अधिसूचना

दिल्ली, 9 फरवरी, 2023

सं. 09/स्था.-I/ ई.-2/डी.एच.सी.—इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 122/स्था.I/ई.-2/डी.एच.सी. दिनांक 20.12.2022 की निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	श्री अनिल कुमार चोपड़ा, कार्यवाहक सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 08.02.2023 से आगामी आदेशों तक श्री तुषार कांति पाण्डेय, कार्यवाहक उप निबंधक की अस्थायी उप निबंधक के रूप में नियुक्ति पर उपलब्ध हुए रिक्त पद के प्रति।

- टिप्पणी: 1) उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक “रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक “के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक “दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक “प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक “अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” के परिणाम के अध्यक्षीन है तथा इस शर्त के भी अध्यक्षीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/ कर्मचारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।
- 2) इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियुक्ति सहायक निबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में दिए गए अनुपात में संशोधन/बदलाव से सम्बंधित लंबित अभ्यावेदनों के परिणाम के भी अध्यक्षीन है।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.1)

## NOTIFICATION

Delhi, the 9th February, 2023

No. 09/Estt. I/E-2/DHC.—In continuation to this Court's Notification No. 122/Estt.I/E-2/DHC dated 20.12.2022, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

S. No.	Name of the officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Anil Kumar Chopra, Officiating Assistant Registrar	Temporary Assistant Registrar in Level 12 of Pay Matrix (as per 7 <sup>th</sup> Pay Commission)	With effect from 08.02.2023 till further orders against the vacancy which has become available upon appointment of Mr. Tushar Kanti Pandey, Officiating Deputy Registrar as Temporary Deputy Registrar.

NOTES: 1) The above appointment is subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled “Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.”, (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled “K.K. Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.”, (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled “Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.”, (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled “Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.” and (v) W.P. (C) No. 8016/2016 titled “Atul Kumar Sharma Vs. Delhi

*High Court and Anr.*”, and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer(s) placed senior to him and in case no vacancy is available, he shall stand reverted to his previous post.

- 2) Further, the above appointment is also subject to outcome of the pending representations with regard to amendment/change in the ratio in the recruitment rules for appointment to the post of Assistant Registrar.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

### अधिसूचना

दिल्ली, 9 फरवरी, 2023

सं. 10/स्था.-I/ ई.-2/डी.एच.सी.—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	श्री पूरण सिंह तड़ियाल निजी सचिव	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में कार्यवाहक सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 08.02.2023 से 28.02.2023 तक सुश्री रेखा गर्ग, सहायक निबंधक के कार्यवाहक उप निबंधक के रूप में पदोन्नत होने के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए रिक्त पद के प्रति।
		वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 01.03.2023 से आगामी आदेशों सुश्री रेखा गर्ग, कार्यवाहक उप निबंधक के अस्थायी उप निबंधक के रूप में नियुक्त होने पर उपलब्ध होने वाले रिक्त पद प्रति।

टिप्पणी: 1 उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक “रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक “के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक “दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक “प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक “अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” के परिणाम के अध्यधीन है तथा इस शर्त के भी अध्यधीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/ कर्मचारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।

2. श्री पूरण सिंह तड़ियाल, निजी सचिव की कार्यवाहक सहायक निबंधक के पद पर नियुक्ति इस शर्त के भी अध्यधीन है कि श्री जोगिंदर कुमार बत्रा, निबंधक, जो वर्तमान में टी.डी.एस.ए.टी. में प्रतिनियुक्ति पर हैं, के इस न्यायालय में प्रत्यावर्तन की दशा में और सहायक निबंधक की कोई रिक्ति उपलब्ध न होने पर वे कोर्ट मास्टर के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगी।

3. इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियुक्ति सहायक निबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में दिए गए अनुपात में संशोधन/बदलाव से सम्बंधित लंबित अभ्यावेदनों के परिणाम के भी अध्यधीन है।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.I)



**NOTIFICATION**

Delhi, the 9th February, 2023

**No. 10/Estt. I/E-2/DHC.**—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

S.No.	Name of the officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Puran Singh Tariyal, Private Secretary	Officiating Assistant Registrar in Level 12 of Pay Matrix (as per 7 <sup>th</sup> Pay Commission).	With effect from 08.02.2023 till 28.02.2023 against the resultant vacancy arising consequent upon promotion of Ms. Rekha Garg, Assistant Registrar as Officiating Deputy Registrar.
		Temporary Assistant Registrar in Level 12 of Pay Matrix (as per 7 <sup>th</sup> Pay Commission).	With effect from 01.03.2023 till further orders against the vacancy which will become available upon appointment of Ms. Rekha Garg, Officiating Deputy Registrar as Temporary Deputy Registrar.

**NOTES:** 1) The above appointment is subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled "*Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "*K.K. Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "*Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "*Pratima Rani Gupta & Others Vs. High Court of Delhi and Ors.*" and (v) W.P. (C) No.8016/2016 titled "*Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.*", and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer(s) placed senior to him and in case no vacancy is available, he shall stand reverted to his previous post.

2) The appointment of Mr. Puran Singh Tariyal, Private Secretary as officiating Assistant Registrar, is also subject to the condition that upon repatriation of Mr. Joginder Kumar Batra, Registrar who is on deputation to TDSAT, to this Court and resultantly in case no vacancy of Assistant Registrar is available, he shall be reverted to the post of Court Master.

3) Further, the above appointment is also subject to outcome of the pending representations with regard to amendment/change in the ratio in the recruitment rules for appointment to the post of Assistant Registrar.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

**अधिसूचना**

दिल्ली, 9 फरवरी, 2023

**सं. 11/स्था.-I/ ई.-2/डी.एच.सी.**—इस न्यायालय की अधिसूचना सं 123/स्था.I/ई.-2/डी.एच.सी. दिनांक 20.12.2022 की निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	श्री देविन्दर सिंह वर्मा, कार्यवाहक कोर्ट मास्टर	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी कोर्ट मास्टर (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)  (50% वरिष्ठता कोटे के अन्तर्गत)	दिनांक 08.02.2023 से आगामी आदेशों तक श्री अनिल कुमार चोपड़ा, कार्यवाहक सहायक निबंधक के अस्थायी सहायक निबंधक के रूप में नियुक्ति पर उपलब्ध हुए रिक्त पद के प्रति।

**टिप्पणी:**

1. उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी [भारत सरकार के दिनांक 11.03.2019 के ओ. एम. सं. 28020/3/2018 -स्था. (डी) सहपठित दिल्ली उच्च

न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1972 के नियम 8 के अनुसार] तथा परीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी।

2. उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" के परिणाम के अध्यक्षीन है तथा इस शर्त के भी अध्यक्षीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/ कर्मचारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।
3. इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियुक्ति सहायक निबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में दिए गए अनुपात में संशोधन/बदलाव से सम्बंधित लंबित अभ्यावेदनों के परिणाम के भी अध्यक्षीन है।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.1)

#### NOTIFICATION

Delhi, the 9th February, 2023

**No. 11/Estt. I/E-2/DHC.**—In continuation of this Court's Notification No. 123/Estt.I/E-2/DHC dated 20.12.2022, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

S. No.	Name of the Official & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Devinder Singh Verma, Officiating Court Master	Temporary Court Master in Level 11 of Pay Matrix (as per 7 <sup>th</sup> Pay Commission)  (under 50% seniority quota)	With effect from 08.02.2023 till further orders against the vacancy which has become available upon appointment of Mr. Anil Kumar Chopra, Officiating Assistant Registrar as Temporary Assistant Registrar.

**NOTES:** 1. The appointment of above mentioned officer will be on probation initially for a period of one year from the date of his appointment [in terms of Govt. of India O.M. No. 28020/3/2018-Estt.(D) dated 11.03.2019 read with Rule 8 of Delhi High Court Establishment (Appointment & Conditions of Service) Rules, 1972] and expiry of the period of probation shall not result in his automatic confirmation.

2. The above appointment is subject to outcome of the (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled 'Ravinder Pahuja & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors.', (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled 'K.K. Sharma & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors.', (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled 'Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi and Ors.', (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.", and (v) W.P.(C) No. 8016/2016 titled "Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.' and as also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions, his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer(s)/officials placed senior to him and in case no vacancy is available, he shall stand reverted to his previous post.

3. Further, the above appointment is also subject to outcome of the pending representations with regard to amendment/change in the ratio in the recruitment rules for appointment to the post of Assistant Registrar.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

## अधिसूचना

दिल्ली, 9 फरवरी, 2023

सं. 12/स्था.-I/ ई.-2/डी.एच.सी.— माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	सुश्री लीना सुधीर, वरिष्ठ न्यायिक सहायक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी प्रशासनिक अधिकारी (न्या.) (सातवें वेतन आयोग के अनुसार) (50% वरिष्ठता कोटे के अन्तर्गत)	दिनांक 08.02.2023 से आगामी आदेशों तक सुश्री सुमन कालिया, प्रशासनिक अधिकारी (न्या.) की दिनांक 31.01.2023 को सेवानिवृत्ति पर उपलब्ध हुए रिक्त पद के प्रति।
1.	श्री कपिल सूद, वरिष्ठ न्यायिक सहायक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी कोर्ट मास्टर (सातवें वेतन आयोग के अनुसार) (50% वरिष्ठता कोटे के अन्तर्गत)	दिनांक 08.02.2023 से आगामी आदेशों तक श्री हरीश कुमार धीर, कोर्ट मास्टर की दिनांक 31.01.2023 को सेवानिवृत्ति पर उपलब्ध हुए रिक्त पद के प्रति।

## टिप्पणी:

- उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी [भारत सरकार के दिनांक 11.03.2019 के ओ. एम. सं. 28020/3/2018 -स्था. (डी) सहपठित दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1972 के नियम 8 के अनुसार] तथा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी।
- उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" के परिणाम के अध्यक्षीन है तथा इस शर्त के भी अध्यक्षीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/ कर्मचारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियुक्ति सहायक निबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में दिए गए अनुपात में संशोधन/बदलाव से सम्बंधित लंबित अभ्यावेदनों के परिणाम के भी अध्यक्षीन है।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.1)

**NOTIFICATION**

Delhi, the 9th February, 2023

**No. 12/Estt. I/E-2/DHC.**—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the Establishment of this Court:-

S. No.	Name of the Officials & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Ms. Leena Sudheer, Senior Judicial Assistant	Temporary Admn. Officer (Judl.) in Level 11 of Pay Matrix (as per 7 <sup>th</sup> Pay Commission)  (under 50% seniority quota)	<b>With effect from 08.02.2023 till further orders against the vacancy which has become available upon retirement of Ms. Suman Kalia, Admn. Officer (Judl.) on 31.01.2023.</b>
2.	Mr. Kapil Sood, Senior Judicial Assistant	Temporary Court Master in Level 11 of Pay Matrix (as per 7 <sup>th</sup> Pay Commission)  (under 50% seniority quota)	<b>With effect from 08.02.2023 till further orders against the vacancy which has become available upon retirement of Mr. Harish Kumar Dhir, Court Master on 31.01.2023.</b>

**NOTES:** 1. The appointments of above mentioned officers will be on probation initially for a period of one year from the date of their appointment [in terms of Govt. of India O.M. No. 28020/3/2018-Estt.(D) dated 11.03.2019 read with Rule 8 of Delhi High Court Establishment (Appointment & Conditions of Service) Rules, 1972] and expiry of the period of probation shall not result in their automatic confirmation.

2. The above appointments are subject to outcome of the (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled 'Ravinder Pahuja & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors.', (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled 'K.K. Sharma & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors.', (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled 'Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi and Ors.', (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.", and (v) W.P.(C) No. 8016/2016 titled "Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr." and as also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions, their seniority position is depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s)/officials placed senior to them and in case no vacancy is available, they shall stand reverted to their previous post.

3. Further, the above appointments are also subject to outcome of the pending representations with regard to amendment/change in the ratio in the recruitment rules for appointment to the post of Assistant Registrar.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)